

## प्रेस विज्ञप्ति

=====

### बैटरी चोरी की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त पवन को चोरी की गयी 08 बैटरियो सहित थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

=====

दिनांक 03-06-2021 को वादी जियाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी म0नं0 508 गली नंबर 03 जैदी फार्म मंजूरनगर नौचंदी जनपद मेरठ द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर लिखित सूचना अंकित करायी थी कि वह सिकन्द्राबाद फैक्ट्री एरिया में राजारामपुर रोड पर भारत मोटर्स के नाम पर गाड़ी को रिसायकलिंग करने की रजिस्टर्ड फर्म चलाता है। लॉकडाउन के कारण करीब 01 महीने से काम बंद चल रहा है। वहां पर रखे सामान की देखरेख करने के लिए मैंने श्री सिक्योरिटी सर्विस से 02 गार्ड रख रखे हैं। दिनांक 02-06-2021 की रात्रि में जब मैं फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए व सामान चैक करने के लिए गया तो देखा फैक्ट्री से 35 बैटरी गायब थी। बैटरी गायब होने पर मैंने सीसीटीवी चैक किया तो पता चला कि फैक्ट्री में ही गार्ड का काम करने वाला पवन पुत्र बलदेव सिंह निवासी नयागांव थाना सिकन्द्राबाद बुलंदशहर बैटरी चोरी करके ले जाता हुआ मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहा है। उक्त संबंध में वादी की तहरीर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-576/21 धारा 381 भादवि पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04-06-2021 को गश्त व चैकिंग के दौरान थाना सिकन्द्राबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की बीती रात जो फैक्ट्री से बैटरी चोरी की गई थी उस घटना में संलिप्त अभियुक्त पवन बैटरियों को बेचने के उद्देश्य से गुलावठी फ्लाईओवर पर खड़ा है। इस सूचना पर थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पवन को चोरी की 08 बैटरी सहित गुलावठी फ्लाईओवर से समय करीब प्रातः 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पवन पुत्र बलदेव सिंह निवासी नयागांव थाना सिकन्द्राबाद बुलंदशहर

#### बरामदगी:-

1. चोरी की 08 बैटरी

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।